

# हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान टीम, हरदोई Newswrap

Tue, 01 Feb 2022 03:35 AM



नकली उर्वरक बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया है। पुलिस व कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ी गई उर्वरक की मिनी फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। नकली उर्वरक बनाने वाले व कारोबार करने वाले गिरोह के सरगना को चार अन्य लोगों के साथ पकड़ कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।

डीडी एग्री डॉ. नंद किशोर ने बताया मुरादपुर में सत्यप्रकाश मिश्रा की बंद पड़ी फ्लोर मिल में नकली खाद बनाने का कारोबार चल रहा था। नकली उर्वरक बना कर उसे पैक करने व बाजार में बेचने वाले गिरोह की जानकारी मिलने पर मामले को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी उमेश साहू, भूमि संरक्षण अधिकारी नरोत्तम, शाहाबाद कोतवाल सुरेंद्र कुमार मिश्रा, राजस्व निरीक्षक शाहाबाद रिषी दीक्षित सहित पुलिस बल ने छापामारी की। इस दौरान नकली खाद बनाने का मामला सही पाया गया। फैक्ट्री संचालक विजय गौड़ सहित चार अन्य लोगों को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं।